

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 21-07-2021

“624 अदद नाजायज़ नशीले कैप्सूल के साथ एक युवक गिरफ्तार”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह के कुशल नेतृत्व में कल दिनांक 20.07.2021 को थाना कपिलवस्तु पुलिस व एसएसबी अलीगढ़वा के संयुक्त पेट्रोलिंग के दौरान नेपाल बॉर्डर ग्राम बसंतपुर के पास से एक नवयुवक को 624 अदद नशीला कैप्सूल विन स्पारस्मो नाजायज़ जिसे नेपाल ले जा रहा था, के साथ समय 19. 30 बजे गिरफ्तार किया गया। फ़र्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-खच्चर उर्फ अतिकुर्रहमान पुत्र एस मोहम्मद सा. सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 03 छोटकी पड़रिया थाना लुम्बनी जनपद रुपनदेही नेपाल।

बरामदगी का विवरण-

78 (624 अदद)पत्ता विन स्पारस्मो कैप्सूल नाजायज़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उपनिरीक्षक श्री दिलीप कुमार यादव थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
- 2- का. अभिषेक कुमार यादव थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
- 3- का. वरुण यादव थाना कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
- 4- निरीक्षक शाम सिंह एसएसबी अलीगढ़वा सिद्धार्थनगर।
- 5-हे. का. कुमधेश कुमार एसएसबी अलीगढ़वा सिद्धार्थनगर।
- 6- का. अमित कुमार एसएसबी अलीगढ़वा सिद्धार्थनगर।

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 21-07-2021

शांति व्यवस्था भंग करने वाले 04 नफ़र अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत मोहाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायालय

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 21.07.2021 को अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के शांति व्यवस्था भंग कर रहे 04 नफर अभियुक्तों को धारा 151,107,116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अभियुक्तों का विवरण -

1. सन्नी पुत्र गेलही
2. बीरेंद्र उर्फ काम पुत्र मग्गुन साकिनान कसियापुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. संदीप पुत्र लालचंद मोदनवाल
4. संदीप गुप्ता पुत्र प्रहलाद गुप्ता
साकिनान बर्डपुर बाजार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0 नि0 मनोज कुमार श्रीवास्तव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. उ0 नि0 धर्मेन्द्र कुमार यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. हे0का0 देशदीपक सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
4. हे0का0 दिनेश यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
5. हे0का0 राजमंगल यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 21-07-2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 21.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में उ0नि0 सूर्यप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी कोटिया टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विरेन्द्र पुत्र बरसावन यादव उम्र 23 वर्ष निवासी पिपरा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. सुनील पुत्र राममोहन उम्र 24 वर्ष निवासी पिपरा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. मुकेश पुत्र बिरजा उम्र 30 वर्ष निवासी पिपरा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
4. सुरेश पुत्र दूबर उम्र 40 वर्ष निवासी पिपरा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ०नि० सूर्यप्रकाश सिंह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2.हे०का० राममिलन पासवान थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3.का० सन्दीप यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4.का० अशोक यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 21-07-2021

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर बैंक,वाहन,संदिग्ध ब्यक्ति चेकिंग के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दृष्टिगत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री कृष्ण देव सिंह, थाना को० व जिला सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में दौराने वाहन चेकिंग सूचना मिली कि जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर के ओ०पी०डी० के सामने से एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस संख्या UP55W3062 चोरी हो गयी।उक्त सूचना पर थाना को० सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर दूसरी मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP55Z8573 हीरो स्पेंडर प्लस खड़ी मिली जिसको चालान ऐप्प के माध्यम से सर्च कर उक्त वाहन स्वामी को वापस बुलाकर मोटरसाइकिल को वास्तविक वाहन स्वामी अखिलेश पुत्र अवधेश यादव, साकिन कुआं घाटा थाना उसका बाजार जिला सिद्धार्थनगर को दिया गया तथा दोनों वाहन को आपस मे एक दूसरे को दिया गया। तथा आवश्यक हिदायत दिया गया ।

पुलिस टीम का विवरण:-

- 01.उ०नि० राकेश त्रिपाठी
- 02.का० धीरज यादव
- 03.का० रविकान्त
- 04.का० विवेक शर्मा

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 21-07-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-21-07-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 515 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 154 वाहनों का चालान कर ₹ 1,62,500/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

